

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक- 14.09.21

थाना जैतीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतीपुर में हुई चोरी का 24 घण्टे के अन्दर किया सफल अनावरण

***02 शांतिर अन्तर्जनपदीय चोर गिरफ्तार, चोरी के सामान, अवैध असलाह व कारतूस सहित 01 एक ठेलीनुमा मोटरसाईकिल बरामद* ।**

दिनांक 13.09.21 को वादी मो0 अकरम फार्मसिस्ट पीए0एच0सी खेडा रठ की तहरीरी सूचना पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खेडा रठ थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर से चोरी की गयी राजकीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत मु0अ0स0 368/2021 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। चोरी की घटना को पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुये थाना जैतीपुर को शीघ्र अनावरण करने हेतु सख्त निर्देश दिये गये।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण व चोरो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में व श्री परमानन्द पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना जैतीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 13.09.21 की रात्रि को श्री अरविन्द कुमार चौहान, थानाध्यक्ष जैतीपुर के नेतृत्व में थाना जैतीपुर की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **समय करीब 23.38 बजे बंडिया खुर्द तिराहे से मैन्था फैक्ट्री के सामने से 02 अभियुक्तो** 1.मौ0 इरफान पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मोहल्ला बडा पारा काशीराम नगर कालौनी थाना दातागंज जनपद बदायूं 2. शाहरुख पुत्र नसीर निवासी मोहल्ला बडा पारा काशीराम नगर कालौनी थाना दातागंज जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक ठेली नुमा मोटरसाईकिल जिस पर लदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुई चोरी का सामान तथा 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0अ0सं0 368/21 धारा 380 आईपीसी व मु0अ0सं0 369/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

***गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण*-**

- 1.मौ0 इरफान पुत्र अब्दुल रशीद निवासी मोहल्ला बडा पारा काशीराम नगर कालौनी थाना दातागंज जनपद बदायूं
2. शाहरुख पुत्र नसीर निवासी मोहल्ला बडा पारा काशीराम नगर कालौनी थाना दातागंज जनपद बदायूं

***बरामदगी का विवरण*-**

- 1.एक अदद ठेलीनुमा मोटरसाईकिल ग्लेमर न0 UP 25 U 2028
2. दो अदद अदद स्टूल लोहा
- 3.चार अदद लोहे की रैक,
- 4.चार अदद लोहे की बेन्च छोटी बड़ी
5. एक अदद लोहे की टेबिल
- 6.एक अदद स्ट्रेचर विथ टेबिल
- 7.एक अदद डिलीवरी टेबिल
- 8.एक अदद टब स्टेण्ड व कुछ अन्य पुराना लोहे का सामान
- 9.एक अदद देशी तमंचा बोर 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315

***पूछताछ विवरण*:-**

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग दिन में कबाड़े का सामान खरीदने की आड में रैकी करते हैं तथा रात्रि में चोरी करते हैं।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम*:-**

1. थानाध्यक्ष अरविन्द सिंह चौहान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री नगेन्द्र सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2305 प्रशान्त महालवार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 1821 नासिर खान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

